

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

SWAMAAN

मैं होली शब्द के अर्थ को
जीवन में लाने वाली तीव्र
पुरुषार्थी हूँ

MADHUBAN





जीवन में
कैसी भी समस्या
हो, बच्चे बन
उसे परमात्मा के
आगे अर्पण कर दो
और निश्चित हो
जाओ तो परमात्मा
आपकी
जरूर मदद करेगा।




हर बच्चे को समाधान, समर्थ स्वरूप में देखने चाहते हैं

बापदादा- 17.03.2003

अभी इस वर्ष बापदादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बोलो दादियाँ हो सकता है? टीचर्स बोला, हो सकता है? पाण्डव हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना! यह नहीं होता तो नहीं होता! बापदादा बहुत मीठे-मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा, सौ गुणा समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्तिद्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर-स्थिति आपकी स्व-स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है और स्व-स्थिति का साधन है - स्वमान। नेचरल रूप में स्वमान हो। याद नहीं करना पड़े, बार-बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं-नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्तनशीन हूँ... हूँ ही। और कोई होने है क्या! कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे। यह निश्चित है। बापदादा सब चेहरे देख रहे हैं यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? अनेक कल्प के हो ना! हो? हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं? फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टीफिकेट मिल गया है ना कि लेना है? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टीफिकेट मिला हुआ है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना।





सम्पूर्णता की ओर

ब्राह्मण आत्मायें जहाँ भी है, दुःख के वायुमण्डल के बीच भी कमल समान, दुःख से न्यारे, बेगम पुर के बादशाह है। तन की बीमारी के दुःख की लहर वा मन में व्यर्थ हलचल के दुःख की लहर वा विनाशी धन के अप्राप्ति की वा कमी के दुःख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार वा स्वभाव वा अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुःख की लहर, वायुमण्डल वा वायुब्रेशन के आधार पर दुःख की लहर, समबन्ध संपर्क के आधार पर दुःख की लहर, कोई भी दुःख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती।

Brahma Kumaris

● आज का सुगन्धित पुष्प ●

Fragrant Flower For Today

**आप अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी
चिन्तन में नहीं लाते हो।**

आप तीव्र पुरुषार्थी हो। 😊


**You do not think about anything of the
past – of yourself or of others.**


**You are an intense
effort-maker! 😊**

एक दिन आयेगा,
बहुत जल्दी आयेगा
जो सब कहेंगे -
मेरा बाबा
आ गया ।



BRAHMA KUMARIS
facebook.com/Mainhuna8





आप का असली मुकाबला
सिर्फ अपने विचारों से है
विचार शक्तिशाली है तो
आपकी जीत है
विचार कमजोर है तो आपकी
हार है



Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org